

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2014—फाल्गुन 2, शक 1935

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2014

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-2(अ) 51-2013-बी-4 दो.— “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 27 जनवरी, 2014 में प्रकाशित की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2(अ) 51-2013-बी-4-दो, दिनांक 27 जनवरी, 2014 में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द तथा चिन्ह पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द तथा चिन्ह आए हैं (2)		शुद्ध शब्द तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
ग्रंथपाल	97	9वीं	ग्रंथालय
मध्यप्रदेश पुलिस ग्रंथालय सेवा भर्ती नियम, 2013.	97	11वीं	मध्यप्रदेश पुलिस ग्रंथालय सेवा भर्ती नियम, (तृतीय श्रेणी अलिपिकीय) 2013.
मध्यप्रदेश पुलिस ग्रंथालय सेवा	98	11वीं	मध्यप्रदेश पुलिस ग्रंथालय (तृतीय श्रेणी अलिपिकीय) सेवा.
राज्य पुलिस सेवा अकार्यपालिक	98(7) अनुसूची-एक	23वीं	राज्य पुलिस सेवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय शर्मा, उपसचिव.